

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2010—आषाढ़ 25, शक 1932

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. एफ. 65-03-2010-तीन-2291.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2010 (पूर्वाद्ध) में दिनांक 03 जुलाई, 2010 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)
1	नगरपालिका निगम, सागर, जिला-सागर	पार्षद	14	चौदह	श्रीमति कमलेश सुभाष घोषी
2	नगरपालिका परिषद्, सिरोंज, जिला-विदिशा	पार्षद	11	ग्यारह	श्री रविकांत तारण
3	नगरपालिका परिषद्, कोलार, जिला-भोपाल	पार्षद	08	आठ	पी. गणेश.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.